



## नए भारत का उदय और चीन का बदलता नज़रिया

### संदर्भ

अप्रैल के प्रथम सप्ताह में दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश यात्रा को लेकर चीन द्वारा तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार के दावे और दलाई लामा को प्रश्रय देने के मुद्दों को लेकर लंबे समय से चीन भारत की आलोचना करता रहा है, परन्तु यह आलोचना अमूमन नीतगित वरिध तक ही सीमति रही है। लेकिन, हाल ही में जब 4 अप्रैल को दलाई लामा तवांग (अरुणाचल प्रदेश) यात्रा पर गए तो चीन के तेवर एकदम बदले हुए नज़र आए। चीनी दैनिक 'ग्लोबल टाइम्स' के हवाले से कहा गया- "क्या भारत, आर्थिक एवं सैन्य दृष्टि से अधिकि मज़बूत चीन का भू-राजनीतिक टकराहट में मुकाबला करने में सक्षम है? स्पष्ट है कि इस बार चीनी वरिध सरिफ नीतगित नरिणय तक सीमति नहीं दिखिता बल्कि यह भारत के लयि एक खुली भू-सामरकि चुनौती है।

### चीन की चिता की वजह

- चीन की चिता की एक मुख्य वजह नए दलाई लामा के चुनाव को लेकर भी है। दरअसल, वर्तमान दलाई लामा (जो 14वें दलाई लामा हैं) की बढ़ती उम्र को देखते हुए उनके उत्तराधिकारी के चयन की बात की जा रही है।
- वैसे, चीन अपने 'पंचेन लामा' (Panchen Lama) का नरिधारण पहले ही कर चुका है, जिसका स्थान तबिबती आध्यात्मकि पदसोपान में दलाई लामा के बाद आता है।
- हालाँकि, दलाई लामा द्वारा अभी तक अपने उत्तराधिकारी के बारे में कोई भी औपचारकि घोषणा नहीं की गई है। इस संदर्भ में उनका कहना है कि उनका उत्तराधिकारी कोई महिला भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा उम्मीदवार जिससे तबिबती जनता अपनी मर्ज़ी से चुने।
- तबिबती बौद्ध परम्परा के मुताबकि, अगला दलाई लामा कौन होगा, इसका संकेत खुद वर्तमान दलाई लामा दे देंगे।
- दरअसल, इस संबंध में चीन की चिता इस बात को लेकर है कि शायद दलाई लामा अपना उत्तराधिकारी भारत से और संभवतः अरुणाचल प्रदेश से ही चुनें, फलस्वरूप तबिबती स्वतंत्रता आन्दोलन का नेतृत्व एक नए व्यक्ती के हाथ आ जाएगा। चीन को खतरा है कि इससे आंदोलन को नया नेतृत्व मिल जाएगा जो भवषिय में उसके समक्ष मुश्कलें पैदा करेगा।

### भारत के लयि चिता की वजह

- गौरतलब है कि उत्तर में भारत, चीन के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है, और इस कषेत्र में सीमा सुरक्षा भारत के लयि हमेशा से एक जटलि मुद्दा रहा है। कभी-कभी इस कषेत्र में चीनी सेना द्वारा अतकिरण की खबरें भी आती रहती हैं।
- साथ ही, जम्मू-कश्मीर के वर्तमान हालातों को देखते हुए एक चिता यह भी उत्पन्न होती है कि अगर भारत, चीन के साथ किसी संभावति भू-सामरकि टकराहट में पड़ता है तो उसके भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं?

### अरुणाचल प्रदेश में चीन का दावा

- ध्यातव्य है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन का दावा बहुत पुराना नहीं है। 1962 के भारत-चीन युद्ध के समय चीन ने तत्कालीन 'नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी' (NEFA) के लगभग आधे कषेत्र पर कब्ज़ा कर लिया था और चीनी सेना तेज़पुर तक पहुँच गई थी।
- लेकिन 21 नवंबर, 1962 को चीन ने एकतरफा युद्ध-वरिम की घोषणा करके पूरे पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश से अपनी सेना हटा ली और इस कषेत्र में युद्ध से पूर्व की स्थितिको बहाल कर दिया था।
- हालाँकि, उसने पश्चिम में लद्दाख के जसि कषेत्र पर कब्ज़ा कर लिया था, उसे अपने नरिंतरण में बनाए रखा, जो आज भी चीन के नरिंतरण में है। इसी कषेत्र को अकसाई चिनि (Aksai chin) कहते हैं।
- उल्लेखनीय है कि उस समय पूर्वी सीमा कषेत्र (अरुणाचल प्रदेश) से सेना हटाने के नरिणय के लयि चीन की जनता ने माओ की आलोचना भी की थी।
- वैसे, अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे की शुरुआत तब से हुई जब 1975 में सक्किमि भारत संघ का 22वाँ राज्य बना। 1978 से चीन लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है।
- चीन की तरफ से एक दावा यह भी कयिा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी लोगों के पूर्वजों की कबरें हैं, इसलयि वे लोग इस कषेत्र को अपनी मातृभूमि का हसिसा बनाना चाहते हैं।

### फनिलैंडाइज़ेशन और भारत क्या है फनिलैंडाइज़ेशन?

- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उस स्थिति के लिये किया जाता है जब एक शक्तिशाली देश अपने किसी छोटे पड़ोसी देश की नीतियों को ज़ोरदार ढंग से प्रभावित करता है।
- 1960 और 70 के दशकों में पश्चिमी जर्मनी में होने वाली राजनीतिक बहसों में यह शब्द अस्तित्व में आया। सामान्यतः इसका प्रयोग अपमानजनक रूप में किया जाता है।
- जिस रूप में जर्मनी तथा अन्य नाटो देश इस शब्द का प्रयोग करते थे, उसके अनुसार यह किसी देश के उस नरिणय को संदर्भित है जिसमें वह अपनी सम्प्रभुता को बरकरार रखते हुए अपने से ज़्यादा शक्तिशाली पड़ोसी देश को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चुनौती न दे।
- वस्तुतः इस शब्द का प्रयोग द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत फिनलैंड पर सोवियत संघ की नीतियों के प्रभाव के संदर्भ में किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है- फिनलैंड की तरह बनना।

## भारतीय स्थिति

- इस संदर्भ में भारत की स्थिति काफी भिन्न रही है। यहाँ भारतीय स्थिति को वर्ष 2009 की एक घटना से अच्छी तरह समझा जा सकता है, उस समय दलाई लामा की प्रस्तावित तवांग यात्रा को लेकर भारत और चीन के बीच तलखी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यह विवाद उस समय जाकर टला जब तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री वेन ज़िआबाओ ने भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सहि को हुआ हनि (वयितनाम) में होने वाली एपेक (APEC) की बैठक में आमंत्रित किया। ज़िआबाओ ने भारतीय प्रधानमंत्री से वदिशी मीडिया को तवांग से बाहर रखने और इस मुद्दे की तरफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान न जाने देने का अनुरोध किया।
- लेकिन जब से नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है, चीन को लगता है कि भारत फिनलैंड इज़ेशन की स्थिति से बाहर आ रहा है, और वर्तमान में दलाई लामा की तवांग यात्रा को लेकर आई तीखी प्रतिक्रिया को इसी की परिणति माना जा सकता है।